



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



**संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001  
**Department of Communication**, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

5 दिसंबर 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश**

| 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* |          |          |          |        |      |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| (₹ करोड़)                                     |          |          |          |        |      |
| मद                                            | 2024     | 2025     |          | घट-बढ़ |      |
|                                               | 29 नवंबर | 21 नवंबर | 28 नवंबर | सप्ताह | वर्ष |
|                                               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    |
| <b>4. ऋण और अग्रिम</b>                        |          |          |          |        |      |
| 4.1 केंद्र सरकार                              | 0        | 0        | 0        | 0      | 0    |
| 4.2 राज्य सरकारें                             | 16465    | 27060    | 18966    | -8094  | 2501 |

\* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

| 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि*        |                  |               |                            |              |                          |              |               |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| मद                                    | 28 नवंबर 2025 तक |               | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |              |                          |              |               |              |
|                                       |                  |               | सप्ताह                     |              | मार्च 2025 की समाप्ति पर |              | वर्ष          |              |
|                                       | ₹ करोड़          | मिलियन अ.\$   | ₹ करोड़                    | मिलियन अ.\$  | ₹ करोड़                  | मिलियन अ.\$  | ₹ करोड़       | मिलियन अ.\$  |
|                                       | 1                | 2             | 3                          | 4            | 5                        | 6            | 7             | 8            |
| <b>1 कुल आरक्षित निधि</b>             | <b>6137575</b>   | <b>686227</b> | <b>-17788</b>              | <b>-1877</b> | <b>425434</b>            | <b>17901</b> | <b>576914</b> | <b>28136</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#           | 4982046          | 557031        | -33059                     | -3569        | 131212                   | -10526       | 175430        | -11821       |
| 1.2 स्वर्ण                            | 946227           | 105795        | 14219                      | 1613         | 278065                   | 27619        | 380278        | 38817        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                 | 166610           | 18628         | 522                        | 63           | 11321                    | 459          | 14458         | 621          |
| 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | 42692            | 4772          | 530                        | 16           | 4837                     | 349          | 6747          | 518          |

\* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

# इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि और (डी) नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के वित्तपोषण में रिज़र्व बैंक का योगदान शामिल नहीं है।

| 4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – भारत में कारोबार |                        |                            |                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| (₹ करोड़)                                     |                        |                            |                      |                |                |                |
| मद                                            | 14 नवंबर 2025 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                      |                |                |                |
|                                               |                        | पखवाड़ा                    | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                        |                            | 2024-25              | 2025-26        | 2024           | 2025           |
|                                               | 1                      | 2                          | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>2 अन्यो के प्रति देयताएं</b>               |                        |                            |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमा राशियां                           | 24093532               | -82225                     | 1380663              | 1512931        | 2204030        | 2237643        |
| 2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)                      |                        | -0.3                       | 6.7                  | 6.7            | 11.2           | 10.2           |
| 2.1.1 मांग                                    | 2991666                | -109282                    | 71704                | 293617         | 208379         | 476108         |
| 2.1.2 मीयादी                                  | 21101867               | 27057                      | 1308959              | 1219314        | 1995651        | 1761535        |
| 2.2 उधार                                      | 834189                 | -12051                     | 139421               | -81059         | 74847          | -83174         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 1026265                | -56502                     | 3555                 | -35366         | 53750          | 85283          |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>19345790</b>        | <b>-47865</b>              | <b>930654</b>        | <b>1101818</b> | <b>1742011</b> | <b>1982973</b> |
| 7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)                        |                        | -0.2                       | 5.7                  | 6.0            | 11.2           | 11.4           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 79191                  | 8820                       | 22076                | 42660          | 4896           | 34034          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 19266599               | -56685                     | 908578               | 1059158        | 1737115        | 1948938        |

नोट: आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से किसी गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

| 6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत                                                             |                |          |                            |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|----------------------|-----|---------|------|--------------|------|---------|------|
| (₹ करोड़)                                                                                 |                |          |                            |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |
| मद                                                                                        | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |
|                                                                                           | 2025           |          | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |     |         |      | वर्ष-दर-वर्ष |      |         |      |
|                                                                                           | 31 मार्च       | 14 नवंबर | राशि                       | %    | राशि                 | %   | राशि    | %    | राशि         | %    | राशि    | %    |
|                                                                                           | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5                    | 6   | 7       | 8    | 9            | 10   | 11      | 12   |
|                                                                                           | 27286589       | 28945493 | -51646                     | -0.2 | 1422574              | 5.7 | 1658904 | 6.1  | 2427456      | 10.1 | 2583058 | 9.8  |
| एम3                                                                                       |                |          |                            |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                                                                   |                |          |                            |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                                                                    | 3630751        | 3751223  | 31045                      | 0.8  | 45606                | 1.3 | 120471  | 3.3  | 201083       | 6.2  | 295341  | 8.5  |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                                                            | 2840023        | 3137172  | -108643                    | -3.3 | 70557                | 2.7 | 297149  | 10.5 | 208361       | 8.5  | 479727  | 18.1 |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि                                                         | 20702508       | 21943503 | 27526                      | 0.1  | 1303177              | 6.9 | 1240994 | 6.0  | 1994606      | 11.0 | 1792165 | 8.9  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाराशि                                                      | 113307         | 113595   | -1574                      | -1.4 | 3234                 | 3.4 | 289     | 0.3  | 23406        | 31.5 | 15825   | 16.2 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                                             |                |          |                            |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                                                                 | 8510825        | 8788361  | 48491                      | 0.6  | 500626               | 6.6 | 277536  | 3.3  | 628822       | 8.4  | 684164  | 8.4  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                                                        | 1508105        | 1633175  | 103264                     |      | 115642               |     | 125070  |      | 206532       |      | 324320  |      |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                                                           | 7002720        | 7155186  | -54772                     | -0.8 | 384984               | 6.0 | 152466  | 2.2  | 422290       | 6.6  | 359844  | 5.3  |
| 2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण                                                          | 19068129       | 20152225 | -51524                     | -0.3 | 942242               | 5.5 | 1084096 | 5.7  | 1783030      | 10.9 | 2007151 | 11.1 |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                                                        | 38246          | 10230    | -3373                      |      | -5257                |     | -28016  |      | 3909         |      | 1081    |      |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                                                           | 19029883       | 20141995 | -48151                     | -0.2 | 947499               | 5.5 | 1112112 | 5.8  | 1779121      | 10.9 | 2006070 | 11.1 |
| नोट: आंकड़ों में 14 जुलाई 2023 से किसी गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है। |                |          |                            |      |                      |     |         |      |              |      |         |      |

| 8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन               |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------|
| (₹ करोड़)                                                  |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |
| तारीख                                                      | चलनिधि समायोजन सुविधा |                 |                  |                             |         |         | स्थायी चलनिधि सुविधायें | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|                                                            | रेपो                  | प्रतिवर्ती रेपो | परिवर्ती दर रेपो | परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो | एमएसएफ़ | एसडीएफ़ |                         | विक्रय         | क्रय |                                                      |
|                                                            | 1                     | 2               | 3                | 4                           | 5       | 6       |                         | 8              | 9    |                                                      |
| 24 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 729     | 153483  | -                       | -              | -    | -152754                                              |
| 25 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 1092    | 159522  | -                       | -              | -    | -158430                                              |
| 26 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 1985    | 141197  | -                       | -              | -    | -139212                                              |
| 27 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 318     | 150906  | -872                    | -              | -    | -151460                                              |
| 28 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 2144    | 186351  | 2242                    | -              | -    | -181965                                              |
| 29 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 341     | 153397  | -                       | -              | -    | -153056                                              |
| 30 नवंबर 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 307     | 135576  | 522                     | -              | -    | -134747                                              |
| एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा। |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |